

Num

Chapter 3

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
וְאֵלֶּה וְתוֹלְדוֹת אַהֲרֹן וּמִשָּׁה וּבְיָמֵי מִשָּׁה וְיָהוָה וְאֵת מִשָּׁה בְּהָר סִינַי:
और-ये और-वंशावली और-हारून-की और-मूसा-की और-दिन में-बोला यहीवा से-मूसा पर-पहाड़ सीने-के
[H0428](#) [H8435](#) [H0175](#) [H4872](#) [H3117](#) [H1696](#) [H3068](#) [H0854](#) [H4872](#) [H2022](#) [H5514](#)

जिस समय यहीवा ने सीने पर्वत पर मूसा से बात की, उस समय हारून और मूसा के परिवार का इतिहास यह है।

2
וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְנָדָב וַאֲבִיהוּא וְאַלְעָזָר וְאִיתָמָר:
और-ये नाम पुत्रों-के हारून-के पहलौठा नादाब और-अबीहू एलआज़ार और-ईतामार
[H0428](#) [H8034](#) [H0175](#) [H1060](#) [H5070](#) [H0030](#) [H0499](#) [H0385](#)

हारून के चार पुत्र थे। नादाब पहलौठा पुत्र था। उसके बाद अबीहू, एलीआज़ार और ईतामार थे।

3
וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-אַהֲרֹן הַכֹּהֵן יָדָם מִלְּאָ אֲשֶׁר-הַמְּשָׁחִים הַכֹּהֲנִים אַהֲרֹן יָאֲזִק:
ये नाम पुत्रों-के हारून-के याजकों के-अभिषिक्तों-के जिनके-भरा उनके-हाथ उनके-लिए करने-के-याजकी-
[H0428](#) [H8034](#) [H0175](#) [H3548](#) [H4886](#) [H4390](#) [H3027](#) [H3547](#)

ये पुत्र चुने हुए याजक थे। इन्हें याजक के रूप में यहीवा की सेवा का विशेष कार्य सौंपा गया था।

4
וַיָּמָת וְנָדָב וַאֲבִיהוּא לְפָנָי וְיָהוָה בְּהַקְרָבִים אֵשׁ זָרָה לְפָנָי יָהוָה יְהוָה-כֶּסֶם-לְפָנָי וְיָהוָה-כֶּסֶם-לְפָנָי
और-मरा नादाब और-अबीहू के-सामने के-सामने यहीवा-के यहीवा-के चढ़ाया-उन्होंने-जब आग अजनबी के-सामने यहीवा-के
[H4191](#) [H5070](#) [H0030](#) [H6440](#) [H3068](#) [H7126](#) [H0784](#) [H3068](#)

5
בְּמִדְבָּר סִינַי וּבְנֵי-לֹא-הָיוּ לְהֵם לְפָנָי וְאִיתָמָר-עַל-פָּר-וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-אַהֲרֹן וְאִיתָמָר-עַל-פָּר-וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-אַהֲרֹן וְאִיתָמָר-עַל-פָּר-וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-אַהֲרֹן וְאִיתָמָר-עַל-פָּר-
में-जंगल में-के सीने-के और-पुत्र और-पुत्र नहीं-थे उनके-लिए और-याजकी-किया और-ईतामार-ने एलआज़ार-ने और-ईतामार-ने पर-
[H5514](#) [H3808](#) [H1961](#) [H3547](#) [H0499](#) [H0385](#)

6
פְּנֵי אַהֲרֹן וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-אַהֲרֹן וְאִיתָמָר-עַל-פָּר-וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-אַהֲרֹן וְאִיתָמָר-עַל-פָּר-
सामने हारून उनके-पिता-के
[H6440](#) [H0175](#) [H0001](#)

किन्तु नादाब और अबीहू यहीवा की सेवा करते समय पाप करने के कारण मर गए। उन्होंने यहीवा को भेंट चढ़ाई, किन्तु उन्होंने उस आग का उपयोग किया जिसके लिए यहीवा ने आज्ञा नहीं दी थी। इस प्रकार नादाब और अबीहू वहीं सीने की मरुभूमि में मर गए। उनके पुत्र नहीं थे, अतः एलीआज़ार और ईतामार याजक बने और यहीवा की सेवा करने लगे। वे यह उस समय तक करते रहे जब तक उनका पिता हारून जीवित था।

7
וַיְדַבֵּר וְיָהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר:
और-बोला और-यहीवा से-मूसा कहते-हुए
[H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0559](#)

यहीवा ने मूसा से कहा,

8
הַקָּרֵב אֶת-מִטְּהָ לְוִי וְהָעֲמִדָּה לְוִי וְאֵת-הַכֹּהֵן לְפָנָי וְאֵת-וְשָׂרְתָו וְאֵת-אֶתוֹ:
ला को-गोत्र लेवी-का और-खड़ा-कर के-सामने हारून के-सामने उसे उसी और-सेवा-करेंगे
[H7126](#) [H0853](#) [H4294](#) [H3878](#) [H5975](#) [H0853](#) [H6440](#) [H0175](#) [H3548](#) [H8334](#) [H0853](#)

“लेवी के परिवार समूह के सभी लोगों को याजक हारून के सामने लाओ। वे लोग हारून के सहायक होंगे।

9
וְשָׂמְרוּ אֶת-מִשְׁמֶרְתּוֹ וְאֵת-כָּל-מִשְׁמֶרֶת-הָעֵדָה לְפָנָי אֶת-הָאֶהָל וְאֶת-מִוְעֵד:
और-रखेंगे और-को-उसकी-पहरा को-पहरा सारी-पहरा मण्डली-की के-सामने तम्बू के-सामने के-सामने
[H8104](#) [H0853](#) [H4931](#) [H0853](#) [H4931](#) [H3605](#) [H5712](#) [H6440](#) [H0168](#) [H4150](#)

10
לְעֵבֶד אֶת-עֲבֹדַת-הַמִּשְׁכָּן:
करने-के-लिए को-सेवा निवास-की
[H5647](#) [H0853](#) [H5656](#) [H4908](#)

लेवीवंशी हारून की उस समय सहायता करेंगे जिस समय वे पवित्र तम्बू में उपासना करने आएंगे।

לְעִבְדֹתָם	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	מִשְׁמֶרֶת	וְאֵת	מוֹעֵד	אֶהְלֵךְ	כָּלִי	כָּל-	אֶת-	וְשָׁמְרוּ	8
करने-के-लिए	इस्राएल-के	पुत्रों-की	पहरा	और-को-	मिलाप-के	तम्बू	बर्तनों	सब-	को-	और-रखेंगे	
H5647	H3478		H4931	H0853	H4150	H0168	H3627	H3605	H0853	H8104	

אֶת עֲבֹדַת הַמִּשְׁכָּן:
 निवास-की सेवा को-
[H4908](#) [H5656](#) [H0853](#)

इस्राएल के लोग मिलापवाले तम्बू की हर एक चीज की रक्षा करेंगे, यह उनका कर्तव्य है। किन्तु इन चीजों की देखभाल करके ही लेवीवंश के लोग इस्राएल के लोगों की सेवा करेंगे। पवित्र तम्बू में उपासना करने की उनकी यही पद्धति होगी।

מֵאֵת	לִּי	הַמָּה	נָתַתָּם	נָתַתָּם	וּלְבָנָיו	לְאַהֲרֹן	הַלְוִיִּם	אֶת-	וְנָתַתָּה	9
से	उसे	वे	दिए-गए	दिए-गए	और-उसके-पुत्रों-के-लिए	के-लिए-हारून	लेवियों	को-	और-देगा	
H0854		H1992	H5414	H5414		H0175	H3881	H0853	H5414	

יִשְׂרָאֵל:
 इस्राएल-के पुत्रों-की
[H3478](#)

“इस्राएल के सभी लोगों में से लेवीवंशी चुने गए थे। ये लेवी, हारून और उसके पुत्रों की सहायता के लिए चुने गए थे।

וְהָרַב	וְהַיָּהוּד	כַּהֲנָתָם	אֶת-	וְשָׁמְרוּ	תְּבַקֵּר	בְּנָיו	וְאֶת-	אֶהְרֹן	וְאֶת-	10
जो-पास-आए	और-पराया	उनकी-याजकी	को-	और-रखेंगे	ठहराएगा	उसके-पुत्रों	और-को-	हारून	और-को-	
H7126		H3550	H0853	H8104			H0853	H0175	H0853	

יּוֹמָת:
 मारा-जाएगा
[H4191](#)

“तुम हारून और उसके पुत्रों को याजक नियुक्त करोगे। वे अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और याजक के रूप में सेवा करेंगे। कोई अन्य व्यक्ति जो पवित्र चीजों के समीप आने का प्रयत्न करता है, मार दिया जाना चाहिए।”

וַיִּדְבֹר	וַיְהוּדָה	אֶל-	מֹשֶׁה	לְאַמֹּר:	11
और-बोला	यहोवा	से-	मूसा	कहते-हुए	
H1696	H3068	H0413	H4872	H0559	

यहोवा ने मूसा से यह भी कहा,

וַאֲנִי	הִנֵּה	לְקַחְתִּי	אֶת-	הַלְוִיִּם	מִתּוֹךְ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	תָּחַת	כָּל-	בְּכוֹר	פָּטַר	12
और-मैं	देखो	लिया-है	को-	लेवियों	से-बीच	पुत्रों-के	इस्राएल-के	के-बदले	हर-	पहलौठे	खोलने-वाले	
H0589	H2009	H3947	H0853	H3881	H8432		H3478	H8478	H3605	H1060		

רָחֵם
 गर्भ
 מִבְּנֵי
 से-पुत्रों
 יִשְׂרָאֵל
 इस्राएल-के
 וְהָיוּ
 और-होंगे
 לִי
 मेरे-लिए
 הַלְוִיִּם:
 लेवीय
[H3881](#) [H1961](#) [H3478](#) [H7358](#)

“मैंने तुमसे कहा कि इस्राएल का हर एक परिवार अपना पहलौठा पुत्र मुझ को देगा, किन्तु अब मैं लेवीवंश को अपनी सेवा के लिए चुन रहा हूँ। वे मेरे होंगे। अतः इस्राएल के सभी अन्य लोगों को अपना पहलौठा पुत्र मुझको नहीं देना पड़ेगा। जब तम मिस्र में थे, मैंने मिस्र के लोगों के पहलौठों को मार डाला था। उस समय मैंने इस्राएल के सभी पहलौठों को अपने लिए लिया। सकभी पहलौठे बच्चे और सभी पहलौठे जानवर मेरे हैं। किन्तु अब मैं तुम्हारे पहलौठे बच्चों को तुम्हें वापस करता हूँ और लेवीवंश को अपना बनाता हूँ। मैं यहोवा हूँ।”

כִּי	לִי	כָּל-	בְּכוֹר	בְּיּוֹם	הַכֹּתִי	כָּל-	בְּכוֹר	מִצְרַיִם	הַקְּדָשְׁתִּי	לִי	13
क्योंकि	मेरा-है	हर-	पहलौठा	मैंने-दिन	मैंने-मारा	हर-	पहलौठा	मिस्र-के	पवित्र-किया	मेरे-लिए	
	H3605	H1060	H3605	H5221	H3117	H1060	H3605	H4714	H6942		

כָּל-
 हर-
 בְּכוֹר
 पहलौठा
 בְּיּוֹם
 मैंने-दिन
 עַד-
 से-
 מִצְרַיִם
 से-आदमी
 בְּיִשְׂרָאֵל
 मैं-इस्राएल
 בְּכוֹר
 पहलौठा
 לִי
 मेरे-लिए
 בְּהַמָּה
 पशु
 אֲנִי
 मैं
 יְהוּדָה
 होंगे
 יְהוּדָה
 यहोवा
 ח
 १
[H3068](#) [H0589](#) [H1961](#) [H0929](#) [H5704](#) [H0120](#) [H3478](#) [H1060](#) [H3605](#)

“मैंने तुमसे कहा कि इस्राएल का हर एक परिवार अपना पहलौठा पुत्र मुझ को देगा, किन्तु अब मैं लेवीवंश को अपनी सेवा के लिए चुन रहा हूँ। वे मेरे होंगे। अतः इस्राएल के सभी अन्य लोगों को अपना पहलौठा पुत्र मुझको नहीं देना पड़ेगा। जब तम मिस्र में थे, मैंने मिस्र के लोगों के पहलौठों को मार डाला था। उस समय मैंने इस्राएल के सभी पहलौठों को अपने लिए लिया। सकभी पहलौठे बच्चे और सभी पहलौठे जानवर मेरे हैं। किन्तु अब मैं तुम्हारे पहलौठे बच्चों को

אֲלֵפִים	שְׁבַעַת	פְּקֻדֵיהֶם	וּמַעֲלָה	חֹדֶשׁ	מִבֶּן-	זָכָר	כָּל-	בְּמִסְפָּר	פְּקֻדֵיהֶם	22
हजार	सात	उनकी-गिनती	और-ऊपर	महीने	से-पुत्र-	पुरुष	हर-	के-अनुसार-गिनती	उनकी-गिनती	
H0505	H7651		H4605	H2320		H2145	H3605	H4557		

וּחֲמִשׁ מֵאוֹת:
सौ और-पाँच
[H3967](#) [H2568](#)

इन दोनों परिवार समूहों में एक महीने से अधिक उम्र के लड़के या पुरुष सात हजार पाँच सौ थे।

יְמֵהָ:	יְחִוּוֹ	הַמִּשְׁכָּן	אַחֲרָי	הַגֵּרְשֹׁנִי	מִשְׁפָּחָת	23
पश्चिम-की-ओर	डेरा-डालेंगे	निवास-के	पीछे	गेशोनी-के	कुल	
H3220	H2583	H4908		H1649	H4940	

गेशोन वंश के परिवार समूहों को पश्चिम में डेरा लगाने के लिये कहा गया। उन्होंने पवित्र तम्बू के पीछे अपना डेरा लगाया।

לְאֵל:	בֶּן-	אֶלְיָסָפ	לְגֵרְשֹׁנִי	אָב	בֵּית-	וַנְּשִׂיא	24
लाएल-का	पुत्र-	एल्यासाप	के-लिए-गेशोनी	पूर्वज-का	घराने-	और-प्रधान	
H3815		H0460	H1649	H0001			

गेशोन वंश के परिवार समूहों का नेता लाएल का पुत्र एल्यासाप था।

פֶּתַח	וּמִטָּה	מִכְסֵּהוּ	וְהָאֵהָל	הַמִּשְׁכָּן	מוֹעֵד	בְּאֵהָל	גֵּרְשֹׁן	בְּנֵי-	וּמִשְׁמֶרֶת	25
द्वार	और-परदा	उसका-आवरण	और-तम्बू	निवास	मिलाप-के	में-तम्बू	गेशोन-के	पुत्रों-का-	और-पहरा	
H6607	H4539	H4372	H0168	H4908	H4150	H0168	H1648		H4931	

מִמֹּעֵד: אֵהָל
मिलाप-के तम्बू
[H4150](#) [H0168](#)

मिलापवाले तम्बू में गेशोन वंशी लोग पवित्र तम्बू, आच्छादन और बाहरी तम्बू की देखभाल का कार्य करने वाले थे। वे मिलापवाले तम्बू के प्रवेश द्वार के पर्दे कि भी देखभाल करते थे।

הַמִּזְבֵּחַ	וְעַל-	הַמִּשְׁכָּן	עַל-	אֲשֶׁר	הַחֹצֵר	פֶּתַח	מִסְפָּר	וְאֶת-	הַחֹצֵר	וּקְלָעֵי	26
वेदी	और-पर-	निवास	पर-	जो	आँगन-के	द्वार	परदा	और-को-	आँगन-के	और-परदे	
H4196		H4908				H6607	H4539	H0853			

עֲבֹדָתוֹ: לְכֹל מִיּוֹתָיו וְאֶת סָבִיב
उसकी-सेवा के-सब उसकी-रस्सियाँ और-को चारों-ओर
[H5656](#) [H3605](#) [H4340](#) [H0853](#) [H5439](#)

वे आँगन के पर्दे की देखभाल करते थे। वे आँगन के द्वार के पर्दों की भी देखभाल करते थे। वे रस्सियों और पर्दे के लिए काम में आने वाली हक एक चीज़ की देखभाल करते थे।

וּמִשְׁפָּחָת	הַקְּבָרִי	וּמִשְׁפָּחָת	הַיְצְהָרִי	וּמִשְׁפָּחָת	הַעֲמֻרְמִי	מִשְׁפָּחָת	וְלִקְחָת	27
और-कुल	हेब्रोनी-का	और-कुल	यिसहारी-का	और-कुल	अम्रामी-का	कुल	और-के-लिए-कहात	
H4940	H2276	H4940	H3325	H4940	H6020	H4940	H6955	

הַקְּהָתִי: מִשְׁפָּחָת הָם אֵלֶּה הָעֻזִּיאֵלִי
कहाती-के कुल वे ये उज्जीएली-का
[H6956](#) [H4940](#) [H1992](#) [H0428](#) [H5817](#)

अम्रामियों, यिसहारियों, हेब्रोनीयों और उज्जीएल के परिवार कहात के परिवार से सम्बन्धित थे। वे कहात परिवार समूह के थे।

שְׁמָרֵי	מֵאוֹת	וּשְׁשׁ	אֲלֵפִים	שְׁמֹנֶת	וּמַעֲלָה	חֹדֶשׁ	מִבֶּן-	זָכָר	כָּל-	בְּמִסְפָּר	28
रखवाले	सौ	और-छह	हजार	आठ	और-ऊपर	महीने	से-पुत्र-	पुरुष	हर-	के-अनुसार-गिनती	
H8104	H3967	H8337	H0505	H8083	H4605	H2320		H2145	H3605	H4557	

הַקְּהָתִי: מִשְׁמֶרֶת
पवित्र-की पहरा
[H6944](#) [H4931](#)

इस परिवार समूह में एक महीने या उससे अधिक उम्र के लड़के और पुरुष आठ हजार छः सौ थे। कहात वंश के लोगों को पवित्र स्थान की देखभाल का कार्य सौंपा गया।

29	מִשְׁפַּחַת בְּנֵי-קָהָת	יְחִנּוּ	עַל יְרֵךְ	הַמִּשְׁכָּן	תִּימְנָה:
	कुल	डेरा-डालेंगे	पर	निवास-के	दक्षिण-की-ओर
	H4940	H2583	H3409	H4908	H8486

कहात के परिवार समूहों को पवित्र तम्बू के दक्षिण का क्षेत्र दिया गया। यह वह क्षेत्र था जहाँ उन्होंने डेरे लगाए।

30	וּנְשֵׂאֵי בֵית-אָב	לְמִשְׁפַּחַת	הַקְּהָתִי	אֵלִיָּשָׁפָן	בֶּן-עֻזִּיאֵל:
	और-प्रधान	के-कुलों-के-लिए	कहाती-के	एलीसापान	उज्जीएल-का पुत्र-
	H0001	H4940	H6956	H0469	H5816

कहात के परिवार समूह का नेता उज्जीएल का पुत्र एलीसापान था।

31	וּמִשְׁמֶרֶתְהֶם	הָאָרֶן	וְהַשְּׁלֶחָן	וְהַמִּזְבֵּחַ	וּכְלֵי	שֶׁהָקֹדֶשׁ	אֲשֶׁר	יִשְׁרְתוּ	בָּהֶם
	और-उनकी-पहरा	संदूक	और-मेज़	और-दीवट	और-वर्तन	पवित्र-के	जिनसे	सेवा-करते-हैं	उनमें
	H4931	H0727	H7979	H4501	H4196	H3627	H6944	H8334	

וְהַמִּטָּה	וְכָל	עֲבֹדָתוֹ:
और-परदा	और-सब	उसकी-सेवा
H4539	H3605	H5656

उनका कार्य पवित्र सन्दूक, मेज़, दीपाधार, वेदियों और पवित्र स्थान के उपकरणों की देखभाल करना था। वे पर्दे और उनके साथ उपयोग में आने वाली सभी चीजों की भी देखभाल करते थे।

32	וּנְשֵׂאֵי	נְשֵׂאֵי	הַלְוִי	אֶלְעָזָר	בֶּן-	אֶחָיו	הַכֹּהֵן	פְּקֻדֹת	שְׁמֵרֵי	מִשְׁמֶרֶת
	और-प्रधान	प्रधानों-का	लेवी-का	एलआज़ार	पुत्र-	हारून	याजक-का	गिनती	खरवालों-की	पहरा
	H3881	H0499	H0175	H3548	H6486	H8104	H4931			

הַקְּדֹשׁ:
पवित्र-की
H6944

लेवीवंश के प्रमुखों का नेता हारून का पुत्र एलीआजार था। वह याजक था एलीआजार पवित्र चीजों की देखभाल करने वाले सभी लोगों का अधीक्षक था।

33	לְמַרְרֵי	מִשְׁפַּחַת	הַמַּחֲלֵי	וּמִשְׁפַּחַת	הַמּוֹשֵׁי	אֵלֶּה	הֵם	מִשְׁפַּחַת	מַרְרֵי:
	के-लिए-मरारी	कुल	महली-का	और-कुल	मूशी-का	ये	वे	कुल	मरारी-के
	H4847	H4940	H4250	H4940	H4188	H0428	H1992	H4940	H4847

महली और मूशियों के परिवार समूह मरारी परिवार से सम्बन्धित थे। एक महीने या उससे अधिक उम्र के लड़के और पुरुष महली परिवार समूह में छः हजार दो सौ थे।

34	וּפְקֻדֵיהֶם	בְּמִסְפָּר	כָּל-	זָכָר	מִבְּנֵי-	חֹדֶשׁ	וּמֵעֵלָה	שָׁשָׁת	אַלְפִּים	וּמֵאַתָּתִים:
	और-उनकी-गिनती	के-अनुसार-गिनती	हर-	पुरुष	से-पुत्र-	महीने	और-ऊपर	छह	हजार	और-दो-सौ
	H4557	H3605	H2145	H2320	H4605	H8337	H0505	H3967		

महली और मूशियों के परिवार समूह मरारी परिवार से सम्बन्धित थे। एक महीने या उससे अधिक उम्र के लड़के और पुरुष महली परिवार समूह में छः हजार दो सौ थे।

35	וּנְשֵׂאֵי	בֵית-	אָב	לְמִשְׁפַּחַת	מַרְרֵי	צִוְרִיאֵל	בֶּן-	אַבְיָהֵל	עַל יְרֵךְ
	और-प्रधान	घराने-	पूर्वज-का	के-कुलों-के-लिए	मरारी-के	सूरीएल	पुत्र-	अबीहैल-का	पास पर
	H0001	H4940	H4847	H6700	H0032	H3409			

הַמִּשְׁכָּן	יְחִנּוּ	צָפְנָה:
निवास-के	डेरा-डालेंगे	उत्तर-की-ओर
H4908	H2583	H6828

मरारी समूह का नेता अबीहैल का पुत्र सूरीएल था। इस परिवार समूह को पवित्र तम्बू के उत्तर का क्षेत्र दिया गया था। यही वह क्षेत्र है जहाँ उन्होंने डेरा लगाया।

וַאֲדָנָיו	וְעַמְדָיו	וּבְרִיחָיו	הַמִּשְׁכָּן	קְרָשֵׁי	מְרָרִי	בְּנֵי	מִשְׁמֶרֶת	וּפְקֻדֹת	36
और-उसके-आधार	और-उसके-खंभे	और-उसके-बेड़े	निवास-के	तख्ते	मरारी-के	पुत्रों-की	पहरे-की	और-गिनती	
H0134	H5982	H1280	H4908	H7175	H4847		H4931	H6486	

וְכָל-	כָּלָיו	וְכָל	עֲבָדָתוֹ:
और-सब-	उसके-बर्तन	और-सब	उसकी-सेवा
H3605	H3627	H3605	H5656

मरारी लोगों को पवित्र तम्बू के ढाँचे की देखभाल का कार्य सौंपा गया। वे सभी छड़ों, खम्बों, आधारों और पवित्र तम्बू के ढाँचे में जो कुछ लगा था, उन सब की देखभाल करते थे।

וְעַמְדָיו	הַחֲצָר	סָבִיב	וַאֲדָנֵיהֶם	וַיִּתְּתֵם	וַיְמִיתֵיהֶם:	37
और-खंभे	आंगन-के	चारों-और	और-उनके-आधार	और-उनकी-खूटियाँ	और-उनकी-रस्सियाँ	
H5982		H5439	H0134	H3489	H4340	

पवित्र तम्बू के चारों ओर के आँगन के सभी खम्बों की भी देखभाल किया करते थे। इनमें सभी आधार, तम्बू की खूटियाँ और रस्सियाँ शामिल थीं।

וְהַחֲנִיּוֹם	לְפָנָיו	הַמִּשְׁכָּן	קִדְמָה	לְפָנָיו	אֶהֱלֶ-	וּמוֹעֵד	מִזְרְחָהּ	וּמוֹשָׁה	38
और-डेरा-डालने-वाले	के-सामने	निवास-के	पूर्व-की-ओर	के-सामने	तम्बू-	मिलाप-के	उदय-की-ओर	मूसा	
H2583	H6440	H4908		H6440	H0168	H4150	H4217	H4872	

וְאֶהְרֹן	וּבְנָיו	שְׁמֵרִים	מִשְׁמֶרֶת	הַמִּקְדָּשׁ	לְמִשְׁמֶרֶת	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וְהַזֶּה
और-हारून	और-उसके-पुत्र	रखवाले	पहरा	पवित्र-स्थान-का	के-पहरे	पुत्रों-के	इसाएल-के	और-पराया
H0175		H8104	H4931	H4720	H4931		H3478	

וַיָּמָת:	הַקָּרֵב
मारा-जाएगा	जो-पास-आए
H4191	H7126

मूसा, हारून और उसके पुत्रों ने मिलापवाले तम्बू के सामने पवित्र तम्बू के पूर्व में अपने डेरे लगाए। उन्हें पवित्र स्थान की देखभाल का काम सौंपा गया। उन्होंने यह इस्राएल के सभी लोगों के लिए किया। कोई दूसरा व्यक्ति जो पवित्र स्थान के समीप आता, मार दिया जाता था।

כָּל-	פְּקוּדֵי	הַלְוִיִּם	אֲשֶׁר	פָּקַד	מוֹשֶׁה	עַל-	פִּי	יְהוָה	39
सब-	गिने-गए	लेवियों-के	जिन्हें	गिना	मूसा-ने	पर-	वचन	यहोवा-के	
H3605		H3881			H4872		H6310	H3068	

לְמִשְׁפַּחְתָּם	כָּל-	זָכָר	מִבְּנֵי	חֹדֶשׁ	וּמַעְלָה	שָׁנִים	וְעֶשְׂרִים	אֶלֶף:	ס
उनके-कुलों-के-अनुसार	हर-	पुरुष	से-पुत्र-	महीने	और-ऊपर	बाईस	और-दो	हजार	१॥
H4940	H3605	H2145		H2320	H4605	H8147	H6242	H0505	

यहोवा ने लेवी परिवार समूह के एक महीने या उससे अधिक उम्र के लड़कों और पुरुषों को गिनने का आदेश दिया। सारी संख्या बाईस हजार था।

וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֶל-	מוֹשֶׁה	פָּקַד	כָּל-	בְּכָר	זָכָר	לְבָנָיו	יִשְׂרָאֵל	מִבְּנֵי	40
और-कहा	यहोवा-ने	से-	मूसा	गिन	हर-	पहलौठे	पुरुष	के-पुत्रों-के-लिए	इसाएल-के	से-पुत्र-	
H0559	H3068	H0413	H4872		H3605	H1060	H2145		H3478		

חֹדֶשׁ	וּמַעְלָה	וְשָׁא	אֶת	מִסְפָּר	שְׁמֵתָם:
महीने	और-ऊपर	और-उठा	को	गिनती	उनके-नामों-की
H2320	H4605	H5375	H0853	H4557	H8034

यहोवा ने मूसा से कहा, "इसाएल में सभी एक महीने या उससे अधिक उम्र के पहलौठे लड़के और पुरुषों को गिनो। उनके नामों की एक सूची बनाओ।

וְלִקְחֹתָ	אֶת-	הַלְוִיִּם	לִי	אֲנִי	יְהוָה	תַּחַת	כָּל-	בְּכָר	בְּבָנָיו	יִשְׂרָאֵל	וְאֵת	41
और-लेगा	को-	लेवियों	मेरे-लिए	मैं	यहोवा	के-बदले	हर-	पहलौठे	में-पुत्रों	के-इसाएल	और-को	
H3947	H0853	H3881		H0589	H3068	H8478	H3605	H1060		H3478	H0853	

בְּהֵמַת	הַלְוִיִּם	תַּחַת	כָּל-	בְּכֹר	בְּבֵהֶמַת	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל:
पशु	लेवियों-के	के-बदले	हर-	पहलौठे	में-पशु	पुत्रों-के	इसाएल-के
H0929	H3881	H8478	H3605	H1060	H0929		H3478

अब मैं इस्राएल के सभी पहलौठे लड़कों और पुरुषों को नहीं लूँगा। अब मैं अर्थात् यहोवा लेवीवंशी को ही लूँगा। इस्राएल के अन्य सभी लोगों के पहलौठे जानवरों को लेने के स्थान पर अब मैं लेवीवंशी के लोगों के पहलौठे जानवरों को ही लूँगा।"

וְאֵלֶּךָ	מֵאַוֹת	וּשְׁלֹשׁ	וּשְׁשִׁים	חֲמֵשֶׁה	הַכֶּסֶף	אֶת-	לָקַח	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	בְּכוֹר	מֵאֵת	50
और-हजार	सौ	और-तीन	और-साठ	पैंसठ	चाँदी	को-	लिया	इस्राएल-के	पुत्रों-के	पहलीठों	से	
H0505	H3967	H7969	H8346	H2568	H3701	H0853	H3947	H3478		H1060	H0854	
										הַקֶּדֶשׁ:	בְּשֵׁקֶל	
										पवित्र-के	में-शकेल	
										H6944	H8255	

मूसा ने इस्राएल के पहलौठे लोगों से चाँदी इकट्ठा की। उसने एक हजार तीन सौ पैंसठ शकेल चाँदी “अधिकृत भार” का उपयोग करके इकट्ठा की।

יְהוָה	פִּי	עַל-	וּלְבָנָיו	לְאַהֲרֹן	הַפְּדִיָּם	קֶסֶף	אֶת-	מֹשֶׁה	וַיִּתֵּן	51	
यहोवा-के	वचन	पर-	और-उसके-पुत्रों-के-लिए	के-लिए-हारून	छुड़ाने-की	चाँदी	को-	मूसा-ने	और-दिया		
H3068	H6310			H0175	H6302	H3701	H0853	H4872	H5414		
					פ	מֹשֶׁה:	אֶת-	יְהוָה	אָזְנָה	כְּאִשֶּׁר	
					¶	मूसा	को-	यहोवा-ने	आज्ञा-दी	जैसा	
						H4872	H0853	H3068	H6680		

मूसा ने यहोवा की आज्ञा मानी। मूसा ने यहोवा के आदेश के अनुसार वह चाँदी हारून और उसके पुत्रों को दी।